

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 अक्टूबर 2022

प्रश्न -1

पूर्वी नौसेना कमान ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है?

- A) वरुण
- B) सिमबेक्स
- C) प्रस्थान
- D) मालाबार

सही उत्तर: C

पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वावधान में 11-12 अक्टूबर, 2022 के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास 'प्रस्थान' का आयोजन किया गया।

प्रश्न -2

किस भारतीय नौसेना जहाज (INS) ने IBSAMAR नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया?

- A) INS सहयाद्री
- B) INS शिशुमार
- C) INS तबर
- D) INS तरकश

सही उत्तर: D

निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष बलों द्वारा एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSAMAR के 7वें संस्करण में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया गया था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 अक्टूबर 2022

प्रश्न -3

इसाइल के साथ किस देश ने समुद्री सीमा विवाद के समाधान के लिए एक 'ऐतिहासिक समझौते' पर हस्ताक्षर किए?

- A) सीरिया
- B) जॉर्डन
- C) इराक
- D) लेबनान

सही उत्तर: D

इजरायल और लेबनान ने महीनों की बातचीत के बाद लंबे समय से चल रहे समुद्री सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया।

प्रश्न -4

विश्व मानक दिवस कब मनाया गया?

- A) 10 अक्टूबर
- B) 12 अक्टूबर
- C) 13 अक्टूबर
- D) 14 अक्टूबर

सही उत्तर: D

विश्व मानक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 अक्टूबर 2022

प्रश्न -5

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वेतन खातों के लिए, कितने बैंकों ने भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) 12
- B) 11
- C) 8
- D) 5

सही उत्तर: B

11 बैंक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक हैं।

प्रश्न -6

उच्च ब्याज दरों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने अपनी 'सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)' योजना को फिर से लॉन्च किया?

- A) DCB बैंक
- B) धनलक्ष्मी बैंक
- C) इंडसइंड बैंक
- D) करूर वैश्य बैंक

सही उत्तर: A

DCB बैंक ने अपनी 'सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)' योजना को फिर से लॉन्च किया है। यह एक 3 साल की FD योजना है जो 7.10 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर प्रदान करती है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 अक्टूबर 2022

प्रश्न -7

किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया?

- A) एक्सिस बैंक
- B) बंधन बैंक
- C) धनलक्ष्मी बैंक
- D) IDBI बैंक

सही उत्तर: B

बंधन बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किसे बॉल्ट ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था?

- A) ऋषभ पंत
- B) सैफ अली खान
- C) सूर्यकुमार यादव
- D) B और C दोनों

सही उत्तर: D

अभिनेता सैफ अली खान और क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को बोल्ट ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज (INS) द्वारा सबमरीन लॉन्चेड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) लॉन्च की गई थी?

- A) INS विक्रान्त
- B) INS तरकश
- C) INS सतपुरा
- D) INS अरिहंत

डेली करंट अफेयर्स क्विज - 22 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: D

सबमरीन लॉन्चेड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) को देश की पहली स्वदेशी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से लॉन्च किया गया था।

प्रश्न -10

"द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग" नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी?

- A) वाल्टर अबिश
- B) टेड कोप्पेल
- C) बॉब डायलन
- D) लिन एबे

सही उत्तर: C

नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन ने "द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग" नामक एक नई पुस्तक लिखी है।